

LE-234
B.COM. LL.B. (VI Sem.) (NEW COURSE)
Examination JULY-AUG. 2022
Compulsory/Optional
Group-
Paper-

Name/Title of Paper- MAJOR SUBJECT PAPER VI (MANAGEMENT ACCOUNTING)

Time: Three Hours

Maximum Marks-100

Minimum Passing Marks-036

नोट: सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिये। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note: Attempt all questions. All questions carry equal marks.

इकाई/Unit-I

1. निम्नलिखित जानकारी से एक तुलनात्मक आय विवरण तैयार करें:-

Prepare a Comparative Income Statement from the following information:-

विवरण (Particulars)	31.03.2014 ₹	31.03.2015 ₹
संचालन से आय (Income from operations)	4,00,000	5,00,000
प्रयुक्त सामग्री की लागत (Cost of Material Consumed)	3,00,000	3,50,000
कर्मचारी लाभ व्यय (Employee benefit expenses)	20,000	24,000
वित्तीय लागत (Finance Cost)	5,000	6,000
अन्य लाभ (Other Revenue)	20,000	30,000
आयकर (Income Tax)	50%	50%

अथवा/Or

“अनुपात विश्लेषण दक्षता में उपलब्धियों को मापने और व्यावसायिक नीतियों का मार्गदर्शन करने के लिए प्रबंधन का एक उपकरण है”, चर्चा करें।

“Ratio analysis is a tool of management for measuring achievements in efficiency and guiding business policies”. Discuss.

इकाई/Unit-II

2. एक फर्म की निम्नलिखित संक्षिप्त चिट्ठे निम्नानुसार हैं:-

The following is the summarized Balance Sheet of a firm:-

चिट्ठे/Balance Sheet

दायित्व (Liabilities)	31.03.2019 ₹	31.03.2020 ₹	संपत्तियाँ (Assets)	31.03.2019 ₹	31.03.2020 ₹
पूँजी (Capital)	2,20,000	2,30,000	भूमि एवं भवन (Land and Building)	1,05,000	1,27,500
किराया विक्रेता (Hire Vendor)	-	30,000	मशीनरी (Machinery)	1,20,000	1,29,000
बैंक से ऋण (Loan from Bank)	47,000	38,500	वितरण गाड़ी (Delivery Van)	-	37,500
श्रीमति A का ऋण (Mrs A's Loan)	-	30,000	रहत्या (Stock)	37,500	33,000
लेनदार (Creditors)	30,000	45,000	देनदार (Debtors)	30,000	45,000
देय बिल (Bills Payable)	20,000	14,000	प्राप्य बिल (B/R)	20,500	12,000
अदन्त व्यय (Outstanding Expenses)	4,000	2,500	नगद (Cash)	8,000	6,000
	3,21,000	3,90,000		3,21,000	3,90,000

- i. मशीनरी पर ह्रास का प्रावधान 01.04.2019 को ₹ 42,000 तथा 31.03.2020 को ₹ 54,000

Provision for depreciation on machinery ₹ 42,000 on 01.04.2019 and ₹ 54,000 on 31.03.2020.

- ii. वर्ष के दौरान साझेदारों ने व्यक्तिगत व्यय के लिए ₹ 45,000 निकाले।

During the year the partners withdrew ₹ 45,000 for personal expenses.

- iii. डिलीवरी वैन को 31.03.2020 को किराया-क्रय पद्धति पर खरीदा गया था तथा ₹ 7,500 का तुरंत भुगतान किया गया था और शेष राशि का भुगतान ₹ 1,500 की 20 मासिक किश्तों में 12% की दर से ब्याज के साथ किया जाना है।

The delivery van was purchased on 31.03.2020 on hire-purchase basis and ₹ 7,500 was paid in 20 monthly instalments of ₹ 1,500 each together with an interest of 12% p.a.

कोष प्रवाह विवरण तैयार कीजिए। **Prepare fund flow statement.**

अथवा/Or

AS-3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण प्रस्तुत करने के विभिन्न तरीके क्या हैं, चर्चा करें।

What are the various methods of presenting cash flow statement as per AS-3? Discuss.

इकाई/Unit-III

3. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर लाभ विवरण तैयार करें- i. अवशोषण लागत विधि ii. सीमावर्ती लागत विधि के अनुसार:-

From the following information prepare statement under Absorption costing and marginal Costing methods:-

उत्पादन (Production)	- 5,500 Units
विक्रय (Sales)	- 5,000 Units @ ₹ 2.40 p.u.
परिवर्तनशील उत्पादन लागत (Variable Manufacturing Costs)	- ₹ 1.20 p.u.
स्थिर उत्पादन लागत (Fixed Manufacturing Costs)	- ₹ 2,860
विक्रय लागत (Selling Expenses)	- ₹ 1,300
जिसमें से (Out of which) ₹ 400 परिवर्तनशील है (is variable).	

अथवा/Or

सीमांत लागत से आप क्या समझते हैं? कॉर्पोरेट निर्णयों के लिए एक उपकरण के रूप में इसकी उपयोगिता बताएं?

What do you understand by Marginal Costing? State its usefulness as a tool for Corporate Decisions?

इकाई/Unit-IV

4. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर उत्पादन के लिए 80% और 100% गतिविधि पर एक लचीला बजट तैयार करें:-

Prepare a flexible budget for the production at 80% and 100% activity on the basis of following Information:-

उत्पादन 50% कार्यक्षमता पर (Production at 50% capacity)	- 5,000 इकाई (Units)
कच्चा माल (Raw Materials)	- ₹ 30 p.u.
प्रत्यक्ष श्रम (Direct Labor)	- ₹ 20 p.u.
प्रत्यक्ष व्यय (Direct Expenses)	- ₹ 10 p.u.
कारखाना व्यय (Factory Expenses) 50% स्थिर (50% Fixed)	- ₹ 40,000
प्रशासनिक व्यय (Administrative Expenses) 70% परिवर्तनशील (70% Variable)	- ₹ 80,000

अथवा/Or

प्रदर्शन बजट से आप क्या समझते हैं? इसके महत्व और सीमाओं की व्याख्या करें, यदि कोई हो।

What do you understand by Performance Budgeting? Explain its importance and limitations, if any.

इकाई/Unit-V

5. प्रमाण लागत क्या है? बजटरी नियंत्रण से प्रमाण लागत के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए।

What is meant by standard costing? Explain the difference between standard costing and budgetary control.

अथवा/Or

एक कारखाने में मानक श्रम मिश्रण इस प्रकार है:- In a factory standard labour mix is as follows:-

पुरुष (Men)- 40, महिला (Women)- 20 तथा लड़के (Boys)- 10

वास्तविक श्रम मिश्रण निम्न प्रकार से है:- The Actual Labour Mix is as follows:-

पुरुष (Men)- 30, महिला (Women)- 30 तथा लड़के (Boys)- 10

पुरुषों, महिलाओं और लड़कों के लिए मानक दर प्रति घंटा क्रमशः ₹ 5, ₹ 4 तथा ₹ 2 है।

Standard rate per hour for men, women and boys is ₹ 5, ₹ 4 and ₹ 2 respectively.

सभी कर्मचारियों के लिए प्रतिदिन काम के घंटे 8 हैं।

The working hours per day for all employees are 8.

श्रम मिश्रण विचरण की गणना करें। Calculate Labour Mix Variances.